

#### **7.1.4 Bills for the purchase of equipment’s for the facilities created under this metric**

<b>Criteria 7</b>	Institutional Values and Best Practices
<b>Key Indicator - 7.1</b>	Institutional Values and Social Responsibilities
	Environmental Consciousness and Sustainability
<b>7.1.4</b>	Bills for the purchase of equipment’s for the facilities created under this metric

### Index

<b>S.no</b>	<b>Name of Document</b>	<b>Page no</b>
1	Borewell equipment’s bills purchased(2019-2024)	1-12

24/307  
 17/12/2019  
 007/1224  
 20.01.2020



BILL CASH MEMO Mob. 8839469140, 9301102930

# Amar Singh Rathor Bore Wells Contractor

304, Tansen Nagar, Gwalior (M.P.)

No. 28 Date 18.12.2019

M/s. आर.डी. लम. इन्वैस्टिमेंट्स

Gwalior (M.P.)

Mob.....

S.No.	Particulars	Qty.	Rate	Amount Rs. P.
①	पॉरिंग क्रा ग्लाई 779X115	—	115 =	89585 = 00
②	वैलिंग जॉन्ट 3 X 300	—	300 =	900 = 00
③	जाली पाइप एक 1 X 500	—	500 =	500 = 00
④	कॉटिंग एक 1 X 200	—	200 =	200 = 00
②	पॉरिंग क्रा ग्लाई 741X115	—	115 =	85215 = 00
	वैलिंग जॉन्ट 4 X 300	—	300 =	1200 = 00
	एक पाइप जाली 1 X 500	—	500 =	500 = 00
	कॉटिंग 2 X 200	—	200 =	400 = 00
			60 =	12300 = 00
③	पुराना करी की सफाई 205X60	—		
	① डीजल 500 X 72.36 = 36180			
	② डीजल 300 X 72.36 = 21711			
	टीएलडीजल आमाई 57891			
	<b>Total</b>			190800 = 00
	<b>Advance</b>			57891 = 00
	<b>Balance</b>			132909

E.O.E.

Signature

Handwritten signature and notes:  
 To see + record within 2 days.  
 18/11/2019  
 VICE-CHANCELLOR  
 ITM UNIVERSITY  
 Gwalior (M.P.)



# Amar Singh Rathor Bore Wells Contractor

304, Tansen Nagar, Gwalior (M.P.)

Ref. No.

97

Date 22-2-21

मैं अमर सिंह राठौर बोर वेल्ल कान्ठेकार ग्वां  
में आई.सी.एम यू.नीवर्सिटी में वीरिंग करना चाहता हूँ।  
बोर वेल्ल के रेट प्रतिफुट 120 रु० कर दी गई है।

वीरिंग चार्ज रेट :-

- वीरिंग जोन्ट प्रति जोन्ट = 300 रु०
- एक घाईफ फिल्टर करना = 500 रु०
- कठिंग प्रति कठिंग = 200 रु०

बोर वेल्ल में पानी की निकलने की कोई गारंटी नहीं है।  
सेमेंट के देना होगा।  
डीजल एवं जगदी सड़कार देना होगा मार्च तथा चाय  
होगा।

कार्च पूरा होना के चार से 6 दिन के अन्दर सेमेंट पूरा  
देना होगा।

पुराने बोर में खड़ी गहराई बढ़ाई जाती है। तो सिविलिंग के  
खड़ी के अभाव में लगता है। 60 रु० प्रतिफुट  
आज्ञा से जारी

अमर सिंह राठौर

Last bill had  
Mar-2021  
2021

अमर सिंह राठौर  
अमर सिंह राठौर

शहज  
अमर सिंह राठौर

वीरिंग करीबने की अनुमति  
साथ से उदान करें।

VICE-CHANCELLOR  
ITM UNIVERSITY  
Gwalior (M.P.)

Amar Singh  
14/22/212021

INVOICE

*Polygram*

*16*  
*mmv*

*Indel Kishan*

**SUPER PUMPS PVT. LTD**  
 15-16 'B', INDUSTRIAL AREA  
 20 VINDYAPURA, BHOPAL - 462023  
 PIN CODE: 2586759, 2586940, 2586970  
 BHOPLA 'SUPER PUMPS' BHOPAL  
 FAX NO: 0755-2586759  
 Mob. No: 9229101704

Invoice No	20-21/77	Dated	25th Feb, 2021
Delivery Note		Mode/Terms of Payment	
Supplier's Ref	INVOICE NO. 20-21/77	Other Reference(s)	
Buyer's Order No.		Dated	<i>18</i>
Despatch Document No.		Dated	
Despatched through	CH NO. 20-21/77	Destination	

M/s. Registrar of I.T.M University,  
 GWALIOR (M.P.)

**COMPANY'S BANK DETAILS**  
 BANK NAME :- HDFC BANK LTD.  
 ACCOUNT NO. 00628020000164  
 IFSC CODE :- HDFC0000062

Description of Goods	HSN CODE	GST%	Quantity	Rate	Value	CGST	SGST	Amount
<u>PUMPING SET</u> Submersible Pumpset 7.5 H.P. 14 stages No. 64945 (Inclusive of all taxes)	8413	12	1.0 NO	24000.00	24000.00			24,000.00
<b>Total Rs.</b>					<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>₹ 24000</b>

Amount Chargeable (in words)  
 Indian Rupees: Twenty four thousand only

Company's VAT TIN: 23283600112  
 Company's GSTIN: 23AAECS4990A1ZL  
 Company's PAN: AAEC54990A  
 Declaration: E & OE JURISDICTION BHOPAL

for SUPER PUMPS PVT. LTD.  
*[Signature]*  
 Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

*[Signature]*

**VICE-CHANCELLOR**  
**ITM UNIVERSITY**  
**Gwalior (M.P.)**

# श्रीराम बोखेल

## ड्रिलिंग रिपोर्ट

34

पता: BSF कॉलोनी के सामने, मंगल डिपार्टमेंट स्टोर के बगल से, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.)  
फोन: 9826092831, 9826232665, 9826543070

216

Date... 25/2/22

माड़ी नम्बर -  
पॉइन्ट नं. - 9  
पार्टी नाम -  
एजेंट/ऑफिस नाम -  
स्थान -  
गोरिंग - 460x120 = 55200  
केसिंग - Balance = 49257  
- 29, 14943  
बेल्डिंग -  
रीमार्क -  
RPM 11456-5 चालू  
RPM 12460-2 बंद

मैनेजर हस्ताक्षर

पार्टी हस्ताक्षर

VICE-CHANCELLOR  
ITM UNIVERSITY  
Gwalior (M.P.)

# Anand & Company

Naya Bazar, Lashkar, Gwalior -474009  
 Dealer of TATA GI Pipes, Dealer of ASTRAL PVC Pipes & Fittings  
 Wholesalers of PVC, G.I. & M.S. Pipes & Fittings

Ph. : 0751- 2666666  
 2434226

INVOICE

No. - - -

Date 26/06/21 136

M/s ITM UNIVERSITY  
 Gwalior  
 mob = 9425771150

Seller GST NO. GST No : 23AFZPG2082A1Z0  
 Customer GST NO. \_\_\_\_\_  
 Vehicle No. \_\_\_\_\_

No.	Size	Description of Goods	HSN	Qty.	Rate	Disc	Amount
	6"	PVC pipe 6kg	3919	250 fit	127 = 10 fit		31775 =
							31775 =

Amount in words thirty Seven thousand four hundred ninty four Rupee only.

**Bank Detail for RTGS**

1. State Bank of India A/c: 33223272897, IFSC: SBIN0031478, Branch-Hujrat Road, Gwalior.
2. Central Bank of India A/c: 3751165252, IFSC: CBIN0280785, Branch-Jayendra Ganj, Gwalior.

SGST 9 %	2859 = 75
CGST 9 %	2859 = 75
IGST 18 %	50
<b>Grand Total</b>	<b>37494 =</b>

**Terms & Conditions**

1. Goods once sold will not be taken back.
2. Subject to Gwalior Jurisdiction only.
3. If bill is not paid with in 15 days the interest will be charged extra @ 2% per month from the date of bill.

for Anand & Company

23/06/21

बोर्डिंग चार्ज का पैका ज़ाद में बनेगा।

VICE-CHANCELLOR  
 ITM UNIVERSITY  
 Gwalior (M.P.)

# श्रीराम बोखेल

## ड्रिलिंग रिपोर्ट

24

पता: MSF कॉलोनी के सामने, पंगल डिपार्टमेंट स्टोर के बगल से, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.)  
फ़ोन: 9826092831, 9826232665, 9826543070

229

Date: 28/6/21

गाड़ी नम्बर - पहला जोर - 90 फुट  
पॉइन्ट नं. - दूसरा जोर - 140 फुट  
पार्टी नाम - तीसरा जोर - 120 फुट  
एजेन्ट/ऑफिस नाम - 350 फुट  
स्थान - 350 फुट x 130 फुट = 45500/-  
बोरिंग - चैक :- गिनोय सिंह तोमर  
केसिंग - 45500/-  
बेल्डिंग -  
रीमार्क -

Singh  
28-6-21

RPM ..... चालू

RPM ..... बंद

मैनेजर हस्ताक्षर

पार्टी हस्ताक्षर

VICE-CHANCELLOR  
ITM UNIVERSITY  
Gwalior (M.P.)

प्रो. अमित सिंह कटियार

बिल/कोश मेमो

मोबा.: 9893886060

## कटियार बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर

हमारे यहाँ रेत, गिट्टी, खाका, बजरी, ईट आदि के विक्रेता

मेन रोड बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक 631

दिनांक 05/07/21

श्रीमान् आर्.टी.एस.

विवरण	दर	रकम
ईटा - 5000 ✓	4.3	21500
रेत - एक टाली <del>2000</del> <sup>1000</sup> <del>1000</del>		12500
सीमेन्ट बारी - 14 ✓	350	4900
गिट्टी 40 mm - 1 छोटी गाड़ी ✓		4000
गिट्टी 20 mm - 1 छोटी गाड़ी ✓		3000
चारकोल (कोमल) - 2 टैला ✓		1500
PVC पाइप 25 ft. ✓		1200
PVC रीलोचन 500 mL + PVC सॉल्वेंट 6" ✓		
		51600
	टोटल	

आर्.टी.एस.  
बहोड़ापुर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

VICE-CHANCELLOR  
ITM UNIVERSITY  
Gwalior (M.P.)





NOTE AND ORDER

PAGE NO.....

24

श्रीमान,

प्रो चांसलर महोदय जी  
आई.टी.एम. भूनिवेशिका  
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- पाटर दार्कस्टिंग हेतु निम्न सामान माँगवानी वास्त

DATE

23/06/2021

FROM THE DESK OF  
Store

NAME

Jaydeep Singh

DESIGNATION

Office Assistant

SIGNATURE OF  
RECOMMENDING AUTHORITY

EXECUTED & DISPOSED  
(DEAN ADMINISTRATION)

COUNTER SIGNED  
(DEAN/DIRECTOR/MD/DP/CD)

महोदय,

उपरोक्त विषय मे लेख है कि पाटर दार्कस्टिंग  
के लिए भुकेश पांडे द्वारा बताया गया निम्न सामान की  
आवश्यकता है।

1. ईट (लम्ब) = 6000 नम X 4.3 = 25800/-
  2. रेशा = 1 डाली @ 12500 = 12500/-
  3. सीमेंट = 14 बैग X 350 = 4900/-
  4. मिट्टी 40mm = 1 डाली @ 4000 = 4000/-
  5. मिट्टी 20mm = 1 डाली @ 3000 = 3000/-
  6. चारकोल = 100kg X 15 = 1500/-
  7. 6" PVC पाइप = 150ft. X 150 = ~~22500~~  
250 37500/-
  8. वोरिंग चार्ज 130 क.मि.  
तीन दार्कस्टिंग = 450ft. X 130क = 58500/-
- 147700/-

वोरिंग का चार्ज कम-ज्यादा हो सकता है चार्ज होने के बाद  
फाइनल होगा।

रशियन भुकेश पांडे सर द्वारा दिया गया है।

- चेक नं० ① अमित सिंह कटियार = 51700/-  
② आनंद एण्ड कम्पनी = 37500/-

धन्यवाद  
23/06/21

वोरिंग चार्ज का पैका बाद में  
CHANCELLOR  
ITM UNIVERSITY  
Gwalior (M.P.)


GSTIN : 23ANPPN8710L1ZK

॥ Shri Ganesha Namah ॥

Mob.: 7879341441, 9990492306

E-mail : nayakenterprises12@gmail.com

## TAX INVOICE



## NAYAK ENTERPRISES



Deals in ELECTRICAL &amp; APPLIANCES

Near Pahade Wali Mata Mandir, Nai Sadak, Lashkar, Gwalior-474001 (M.P.)

Invoice No.: 2082 State Code 23 Date of Invoice : 30/3/24

Detail of Recipient (Billed To)

Name: The University (97)

Address: Gwalior

Mob. No. : GSTIN

Name of Transport : G.R. No. :

S. No.	Description of Goods	HSN Code	Qty.	Rate	Total Value (Rs.)
01	Pipe - 1/4 - Black - 350ft		350	20	7000 = 0
02	Jointer - CI - 1/4		03	150	450 = 0
03	Nut - SS -		06	20	120 = 0
04	Cable - 3 Cor - 2.5 sq mm -		65	125	8125 = 0
05	Starter - 7.5 HP - 3 phase -		01	1600	1600 = 0
06	2221 - 20mm - 100ft -		150	1000	15000 = 0
07	2224 - 20mm - aluminum - cable -		150	175	26250 = 0
08	योकित 5 टिबिटी -		01	650	650 = 0
09	Bus Bar - 63 Amp -		01	2250	2250 = 0
10	isolator 63 Amp - with Bar -		01	1030	1030 = 0

Bank Detail : Bank : HDFC BANK

A/c No. : 50200026130621

IFSC : HDFC0001468

Freight : To Pay  Paid Invoice Amount In Words fourty eight thousand nine hundred seventy five only

Less	
Total Before Tax	48975 = 0
CGST @ 9%	3735 = 38
SGST @ 9%	3735 = 38
IGST @ %	
Freight Labour Charge	
Round Off	
Grand Total	48975 = 0

## TERMS &amp; CONDITION :

- Goods once Sold Will Not Be Returned Back.
- Repairing Shall Be Done Under Guarantee/Warranty Periods Of Goods
- All Dispute are Subject to Gwalior Jurisdiction Only.
- E. & O. E.

For : NAYAK ENTERPRISES

(Prop. / Authorised Signatory)

**Tax Invoice**

(ORIGINAL FOR RECIPIENT)

**ANAND & COMPANY**  
 BAZAR  
 GWALIOR  
 TIN/UIN: 23AFZPG2082A1ZO  
 State Name : Madhya Pradesh, Code : 23  
 Contact : 0751-2666666,9425182000  
 E-Mail : anandfinolex@gmail.com  
 Consignee (Ship to)  
**ITM University**  
 9425771150, Gwalior  
 State Name : Madhya Pradesh, Code : 23  
 Buyer (Bill to)  
**ITM University**  
 9425771150, Gwalior  
 State Name : Madhya Pradesh, Code : 23

Invoice No. <b>1067</b>	Dated <b>31-Mar-24</b>
Delivery Note	Mode/Terms of Payment
Reference No. & Date.	Other References
Buyer's Order No.	Dated
Dispatch Doc No.	Delivery Note Date
Dispatched through	Destination
Bill of Lading/LR-RR No. <b>dt. 31-Mar-24</b>	Motor Vehicle No. <b>MP06L0784</b>
Terms of Delivery	

120

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Amount
1	7" MS PIPE	730630	1,021.200 KGS	63.56	KGS	64,907.47
						5,841.67
						5,841.67
						0.19
						<b>CGST 9%</b>
						<b>SGST 9%</b>
						<b>ROUND OFF</b>
						<b>Total</b>
			1,021.200 KGS			<b>₹ 76,591.00</b>

Amount Chargeable (in words) **INR Seventy Six Thousand Five Hundred Ninety One Only** E. & O.E

Taxable Value	Central Tax		State Tax		Total Tax Amount
	Rate	Amount	Rate	Amount	
64,907.47	9%	5,841.67	9%	5,841.67	11,683.34
<b>Total:</b> 64,907.47		<b>5,841.67</b>		<b>5,841.67</b>	<b>11,683.34</b>

Tax Amount (in words) : **INR Eleven Thousand Six Hundred Eighty Three and Thirty Four paise Only**

Company's Bank Details  
 A/c Holder's Name : **ANAND & COMPANY**  
 Bank Name : **SBI A/C**  
 A/c No. : **33223272897**  
 Branch & IFS Code : **HUJRAT ROAD & SBIN001478**

Company's PAN : **AFZPG2082A**

Declaration  
 We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

for **ANAND & COMPANY**  
 Authorized Signatory

SUBJECT TO GWALIOR JURISDICTION  
 This is a Computer Generated Invoice



53

INVOICE

<b>SUPER PUMPS PVT. LTD.</b> S-16 "B" INDUSTRIAL AREA GOVINDPURA, BHOPAL - 462023 PHONE: 2586759,2586840,2586970 GRAM "SUPUMPS", BHOPAL FAX NO. 0755-2506759 Mob. No. : 9229101704	Invoice No. <b>SUP/23-24/016</b>	Dated <b>25-APR-2023</b>
	Delivery Note	Mode/Terms of Payment
Buyer <b>M/S ITM UNIVERSITY</b> JHANSI ROAD, GWALIOR	Supplier's Ref. <b>INVOICE NO. SUP/23-24/016</b>	Other Reference(s)
	Buyer's Order No.	Dated
	Despatch Document No.	Dated
	Despatched through <b>CH.NO. SUP/23-24/016</b>	Destination

GST NO	COMPANY'S BANK DETAILS
	BANK NAME :- HDFC BANK LTD.
	ACCOUNT NO. 60628021000164
	IFSC CODE :- HDFC0000062

Sl No.	Description of Goods	HSN CODE	GST%	Quantity	Rate	Value	CGST	SGST	Bill Amount
1	Super Submersible Pumpset, 5 H.P. 10 Stage. (Sr. No M- 73213)	8413	18	1.0 NO	24958.00	24958.00	2246.22	2246.22	29450.44
						<b>Total</b>			<b>₹ 29450</b>

Amount Chargeable (in words)  
 Indian Rupees Twenty Nine Thousand Four Hundred Fifty only

Company's VAT TRN: 23283600112  
 Company's GSTIN: 23AAEC54990A1ZL  
 Company's PAN: AAEC54990A

for SUPER PUMPS PVT. LTD.

Authorised Signatory

Jurisdiction - E & OE BHOPAL

This is a Computer Generated Invoice